



# Model Questions

B.Com (Hons): Semester - III

BCH. 3-2: Income Tax Law and Practices.

[DR. Krishna Prasad]

Prepared by: DR. Krishna Prasad,  
Assistant Professor  
in Commerce  
JSR. Co-operative College,  
Jamshedpur.

## Group A Objective types Questions

Select correct Answers :

Q. NO

Q1 - (A) Income Tax department works under:

- (a) Central Government: केंद्र सरकार
- (b) State Government: राज्य सरकार
- (c) Chief Commissioner of Income Tax: मुख्य आयकर कमिश्नर
- (d) Central Board of Direct Tax: केंद्र सीडीटी

Q2 (B) Income Tax Act was passed in:

आय कर अधिनियम पारित किया जाता है,

- (a) 1961
- (b) 1971
- (c) 1981
- (d) 1951

Q3 (C) As per Section 2 (7) of Income Tax, Assessee means

आय कर अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार करदाता है आशय.

(a) The person who is liable to pay Tax or Penalty  
वह व्यक्ति जो कर या अन्य कोई राशि (धारा, अर्थ 2(7)) देने के लिए उत्तरदायी है

(b) The person upon whom the proceeding of the Assessment  
have been started  
वह व्यक्ति जिसके आय का विवरण के लिए कार्यवाही आरम्भ की गयी है,

(c) The person who is deemed "assessee in default".  
वह व्यक्ति जिसको मुक में करदाता मान लिया गया है

(d) all of above. उपरोक्त सभी.

Q) which of the following is the rate of Health and Education cess for the Assessment year 2019-20 for all types of the income, on income of 2019-20 of ITC, Partnership of an individual or firm, etc.

- (a) 3%
- (b) (3+1)%
- (c) 4%
- (d) 5%

E) Angel Tax is levied when \_\_\_\_\_

(a) a privately-held company raised funds through Angel investors at a rate higher than its fair valuation.

(b) capital raised by unlisted companies via issue of shares above its fair value or fair market value.

(c) capital raised by listed companies via issue of shares more than its fair market value.

(d) (a) and (b) Both

F) A citizen of India who goes abroad or leaving India during the previous year for the purpose of employment. As per Section 6(1) the must stay in India to become resident at least

- (a) 60 days
- (b) 180 days
- (c) 90 days
- (d) 182 days

Q 44 AE The provision of presumptive income is applicable if the assessee does not own more than goods carriages at any time during the previous year.

Q 44 AE The provision of presumptive income is applicable if the assessee does not own more than goods carriages at any time during the previous year.

- (A) 10
- (B) 15
- (C) 12
- (D) 20

Ans: Salary group will be Taxable under the Head of

- (A) salary
- (B) capital gain
- (C) income from other sources
- (D) profit from business and profession

Ans: minor's income shall be included in the assessee's income if:

- (A) it exceeds ₹ 1500 [15000 if married]
- (B) it is ₹ 1200 [12000 if married]
- (C) it is nil [2500]
- (D) None of these [5000 if married]

Q For company Assessee [Excluding companies claiming Exemption of 11] the prescribed form is:

- (A) ITR-01
- (B) ITR-02
- (C) ITR-03
- (D) ITR-04

Group: B

Short Answer type Questions

Answer any four questions.

Q. No. ② State features of agricultural income.

कृषि आय की विशेषताएँ बताइए।

Q. No. ③ Discuss any four instances when an assessee has statutory obligation to deduct Tax at source.

इसे चार उदाहरण दीजिए जब करदाता को स्रोत पर कर काटने का दायित्व है।

Q. No. ④ Discuss the deduction under Section 80 C.  
बताइए 80 C की समझाइए।

Q. No. ⑤ What do you mean by permanent account number? state its uses.

स्थायी खाता संख्या क्या है? इसके उपयोग बताइए।

OR  
What is e-filing? state its five Advantages.

इ-फाइलिंग क्या है? इसके पाँच लाभ बताइए।

Q. No. ⑥ Incomes of Amit for the previous year 2018-19 are as follows:

अमित की सारा वर्ष 2018-19 की विभाजित आयें हैं।

- i) Income from salary accrued and received in India ₹ 28000
- ii) भारत में प्राप्त किया गया वेतन की आय ₹ 28000
- iii) Income from house property situated in London ₹ 30000  
लंदन में स्थित संपत्ति की आय ₹ 30000

(iii) Profit from Business in Kanpur ₹ 5,000

काठपुर के व्यापार से लाभ - ₹ 5,000

(iv) Profit from Business in London controlled from India ₹ 7,500

लंदन में स्थित व्यापार से लाभ जो कि भारत से नियंत्रण होता है ₹ 7,500

(v) Agricultural income in India ₹ 10,000

भारत में कृषि से आय ₹ 10,000

(vi) Dividend Receipts from Indian Company

भारतीय कंपनी से ₹ 2,500

Compute the total income of Mr. Anit for the Assessment year 2017-20. if he is

- (a) Ordinarily Resident (b) Not ordinarily Resident (c) Non Resident in India

का निवासी वर्ष 2017-20 के लिए भारत अधिनियम की कुल आय की गणना कीजिए यदि वह

- (a) सामान्य निवासी (b) असाधारण निवासी (c) अनिवासी है।

Q. 20 :- Compute Taxable amount of House rent allowance in following for the A.Y. 19-20  
 31 अक्टूबर 2017 को मरिस द्वारा नई दिल्ली में 21121 का मासिक भाड़ा की जाए।

Gaurav is working as sales manager in a company in Kolkata. He received salary of ₹ 10,000 per month. Dearness allowance ₹ 2,000 per month [50% under term of employment], 5% commission on sales [Sale by him in previous year ₹ 2,00,000] House rent allowance ₹ 2,000 per month.

He lives in Kharagpur and paid ₹ 1500 per month House rent in the previous year.

श्री १९९९ कोलकाता की एक उम्मीद में विनय मैंगल (उपचार) के पद पर कार्यरत हैं ₹-ई ₹ 10000 प्रतिमाह वेतन, महंगाई भत्ता ₹ 2000 प्रतिमाह (50% सेवा शर्तों के अन्तर्गत) ₹-ई बिजली पर 5% कमीशन मिलता है ₹ एक डॉलर गत वर्ष में ₹ 2000000 की बिजली की गई। ₹-ई ₹ 2000 प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है ₹-ई गत वर्ष में मकान का किराया 1500 प्रतिमाह की दर से चुकाया / वह खरगपुर में रहता है।

Q.No

Q8 Mr. Sohan Lal is a Tax Consultant who maintains his accounts on cash basis. He presents the following receipts and payment account for the year ended 31/3/19

श्री सोहन लाल एक आय का सलाहकार हैं, जो सौकर्य आय पर १८ आय का हिसाब रखते हैं का डिपॉजिट वर्ष 2019-2020 के लिए निम्नलिखित जाति एवं भुगतान खाता निम्नलिखित हैं।

Receipts	Amount	payments	Amount
Balance b/f	12500	purchase of type writer	8000
Fees from clients		car Expenses	18000
2016-17	125000	office Expenses	38000
2017-18	15000	salaries	
2018-19	15000	2016-17	30000
Gift from clients	23,900	2017-18	13000
Loan from 2 clients	38000	Repairs	11000
		put on loan	11000
		Income tax paid	1000
		life insurance premium	7000
		Balance c/f	92400
	<u>229,400</u>		<u>229,400</u>

Depreciation on car ₹ 6000, car is used partially (40%) for office purpose and rest for personal purposes.

Compute income from profession of Mr. Sohan Lal for the A.Y. 19-20

कार पर हिसाब ₹ 6000 का है जो कार्यालय के लिए 40% उपयोग होता है शेष व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। वर्ष 19-20 के लिए हिसाब देकर लाभ का पता कर आय शीट में कीजिए।

Q No 09 Compute the income from other sources of Kumeri Anamilela for the assessment year 2019-20 from the following information.

निम्नलिखित सूचनाओं से कुमरी अनामिलेला की अन्य आय का पता कर आय शीट में वर्ष 2019-20 के लिए शीट कीजिए।

(i) Family pension [पारिवारिक पेंशन] ₹ 51000

(ii) winning from card game [क्रीडा के खेल में जीत] ₹ 30000

(iii) Received from lottery ₹ 70000 [Tax deducted at source ₹ 30000]

लॉटरी में जीत की राशि ₹ 70000 [30% टैक्स स्रोत पर ₹ 30000]

(iv) Dividend received from Indian company मध्य प्रदेश से प्राप्त लाभांश ₹ 29000

(v) Interest received from Government securities सरकारी उचितियों से प्राप्त ब्याज 10000

collection charge is 2% in respect of dividend and interest on Govt securities.

लाभांश और सरकारी उचितियों पर ब्याज समस्त अर्थात् 2% लिए 2% कुमिशन दिया।

Group C

Long Answer type Questions  
(Answer any two questions)

Q. No. 10. What do you mean by perquisites?  
What are included in perquisites and profit in lieu of salary.

प्रश्नक संख्या 10 का अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 10 का उत्तर देना है।  
प्रश्नक संख्या 10 का अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 10 का उत्तर देना है।

What do you mean by allowances?  
Discuss different types of allowances.

अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 10 का उत्तर देना है।  
अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 10 का उत्तर देना है।

Q. No. 11. What is meant by Annual value of house property? How it is determined under different circumstances? What deductions are allowed from Annual value in computing taxable Income from house property.

प्रश्नक संख्या 11 का अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 11 का उत्तर देना है।  
प्रश्नक संख्या 11 का अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 11 का उत्तर देना है।

OR  
Which incomes are included under the head capital gains? What are the Exemptions or deductions allowed under this Head?

प्रश्नक संख्या 11 का अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 11 का उत्तर देना है।  
प्रश्नक संख्या 11 का अर्थ है कि आपको प्रश्नक संख्या 11 का उत्तर देना है।



Q. No  
12 Mr. Alankar gives the following particular of his income relevant for the assessment year 2019-2020.

	₹
Basic salary	50000 per month
Bonus	100000 per Annum
Commission	10000 per month
Entertainment allowance	20000 per Annum.
Medical allowance	2000 per month

A Rent-free unfurnished house has been provided in Chennai, fair Rent of the house is 120000 per annum.

Employer has provided free use of a small car for official as well as personal purposes. car can also be used by the family members of Mr Alankar.

Employer's contribution toward recognised provident fund ₹ 90000 per annum. Contribution of Mr. Alankar towards provident fund ₹ 90000. payment of insurance premium by Mr Alankar on his wife's insurance of ₹ 24000, insurance policy taken on 10-2-2016 (sum assured ₹ 200000) determine the taxable

Income of Mr Alankar for the A.Y. 19-20

भारत सरकार का आय विवरण वर्ष 2019-2020 का	
संशोधित 31/3/20 का निम्नलिखित प्रकार दिखे है	
बुनियादी वेतन	50000 प्रति माह
बोनस	100000 प्रति वर्ष
आयोग	10000 प्रति माह
मनोरंजन नगण्य	20000 प्रति वर्ष
चिकित्सा नगण्य	2000 प्रति माह

चेन्नाई में किराया - मुख्य असुरजित मकान  
 3-ई मिला हुआ है। शानका उचित किराया  
 120000 ₹ वाषिक है। मियोन्सा ने रजु द्वारा गर  
 व्यक्तिगत रूप कार्यालय के कार्य के लिए निःशुल्क  
 प्रयोग के लिए ही हुई है। मिस्टर अलका के  
 परिवार के सदस्य श्री. गौरी (मा) का प्रयोग का  
 समत है।

मान्यता प्राप्त जॉर्निडोर फ्लोर में मियोन्सा  
 का योगदान 89000 ₹ वाषिक है तथा मिस्टर  
 अलका का 90000 ₹ वाषिक है।

अपनी पत्नी के  
 जीवन पर 10-2-2016 को ली गयी 2000000 ₹  
 के बैंक पर धन पर 24000 ₹ के प्रीमियम का  
 3-ईने सुगता किया। मिस्टर अलका का वर -  
 विचारण वर्ष 2019-2020 के लिए कर राज्य आय  
 का विचारण कीजिए।

Q.No

(13). Ram owned a house property at Delhi which  
 was occupied by him for the purpose of  
 his residence. He was transferred to  
 Mumbai in June 2018 and therefore he  
 let out the property with effect from  
 1 July 2018. on a monthly rent of ₹ 2500  
 the corporation tax payable in respect  
 of the property @ 20% was 6000 of which  
 50% (percent) was paid by him before 31.3.2019  
 Interest on money Borrowed for the  
 construction of the property amounted to  
 ₹ 30000. Fair Rent of value is ₹ 25000.  
 Standard Rent ₹ 35000. Compute the income  
 from house property for the assessment  
 year 2019-2020.

राम दिल्ली में रहिये रजु मकान संपत्ति का समत

ही, जिससे वह स्वयं रहने के काम में लाता है  
 'जून 2018 में उसका मुम्बई में स्थान (transfer)  
 हो गया, अतः उसने 1 जुलाई 2018 से मकान 25000 ₹  
 मासिक किराये पर दे दिया / मकान से संबंधित  
 निगम कर @ 20% 60000 ₹ में से 31.03.2019  
 तक उसने 50% का मुमुत्तान किया / मकान बनवाने  
 के लिए उसे गैर गैर पर व्यय 300000 ₹ है मकान  
 का उचित किराया मूल्य 250000 ₹ मकान किराया  
 नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत मासिक किराया  
 350000 ₹। कर निष्पत्ति वर्ष 2019-20 के लिए  
 मकान सम्पत्ति से आय की गणना की जाए।